

**प्रेस नोट दिनांक 06.04.2021**

**थाना हाफिजगंज जनपद बरेली**

**थाना हाफिजगंज #bareillypolice द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अवैध शराब के वितरण/बिक्री हेतु 150 पेटी कुल 7200 क्वार्टर विहस्की शराब (मेड इन हिमाचल प्रदेश) बरामद की गयी (बरामद शराब की कीमत करीब 05 लाख रुपये)।**

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बरेली द्वारा अवैध शराब तस्करो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय एवं क्षेत्राधिकारी महोदय नवाबगंज के कुशल परिवेक्षण में दिनांक 05/06.04.2021 की रात्रि को थाना हाफिजगंज पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम भउआ नंगला थाना हाफिजगंज से महेश पुत्र झम्मन लाल के कब्जे से 150 पेटी कुल 7200 क्वार्टर विहस्की शराब (मेड इन हिमाचल प्रदेश) बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना हाफिजगंज पर मु0अ0सं0 91/21 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व 420 भादवि पंजीकृत किया गया। उक्त अवैध शराब आगामी पंचायत चुनाव में वितरण/बिक्री हेतु अभियुक्त द्वारा अपने कब्जे में रखी गयी थी। जिसे वितरण से पूर्व ही पुलिस द्वारा बरामद करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त:-**

1. महेश पुत्र झम्मन लाल नि0 ग्राम भउआ नंगला थाना हाफिजगंज जनपद बरेली।

**बरामदगी का विवरण:-**

1. 150 पेटी विहस्की शराब ब्राण्ड अंडर वर्ड (मेड इन हिमाचल प्रदेश) कुल 7200 क्वार्टर (कीमत करीब 05 लाख रुपये)

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी:-**

1. निरीक्षक सुनील अहलावत थाना प्रभारी हाफिजगंज, बरेली।
2. व0उ0नि0 श्री राजीव कुमार थाना हाफिजगंज, बरेली।
3. उ0नि0 श्री सुभाष चन्द्र आर्य थाना हाफिजगंज, बरेली।
4. का0 44 राहुल यादव थाना हाफिजगंज, बरेली।
5. का0 1130 सचिन कुमार थाना हाफिजगंज, बरेली।
6. का0 102 रविन्द्र कुमार थाना हाफिजगंज, बरेली।
7. का0 2771 अभिषेक सोम थाना हाफिजगंज, बरेली।
8. का0 2869 अंकित पंवार थाना हाफिजगंज, बरेली।
9. का0 2024 मो0 अकरम थाना हाफिजगंज, बरेली।
10. का0 2769 सुधीर कुमार थाना हाफिजगंज, बरेली।
11. आरक्षी चालक अशोक कुमार थाना हाफिजगंज, बरेली।

**प्रभारी निरीक्षक  
थाना हाफिजगंज जनपद बरेली।**